



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

अक्टूबर 31, 2025

संख्या 44

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट - बढ़	
	अक्टूबर 25	अक्टूबर 17	अक्टूबर 24	सप्ताह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3499615	3790340	3795998	5658	296383
1.1 संचलन में नोट	3499601	3790325	3795985	5660	296384
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	15	15	12	-3	-3
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	100	100	0	-1
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना		0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	1042981	827461	823260	-4201	-219721
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8265	7123	7055	-68	-1210
2.6 अन्य बैंक	55966	47832	47855	23	-8111
2.7 अन्य	619764	686378	679914	-6464	60150
3 अन्य देयताएं	1925821	2622955	2565552	-57403	639731
कुल देयताएं / आस्तियां	7152556	7982231	7919776	-62455	767220
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5030178	5047543	5006377	-41166	-23801
2 सोना	576180	954886	927080	-27806	350900
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1310982	1735337	1732684	-2653	421702
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	0	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	24079	30095	23777	-6318	-302
4.3 नाबार्ड	0	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	30948	8733	35276	26543	4328
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात -आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	161705	183688	172426	-11261	10721
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खज़ाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	16418	19887	20092	205	3673

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	अक्टूबर 24, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2025 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	6108299	695355	-69673	-6925	396158	27029	350387	10551
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां#	4976853	566548	-41082	-3862	126019	-1009	-15473	-27203
1.2 स्वर्ण	927080	105536	-27806	-3010	258918	27359	350900	37009
1.3 विशेष आहरण अधिकार	163953	18664	-743	-58	8664	495	10763	445
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	40412	4608	-41	6	2557	184	4197	300

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि; और (घ) नेक्सस ग्लोबल भुगतान के निधियन में आरबीआई का योगदान।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

अक्टूबर 31, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 864207 करोड़	2025													
	अक्टूबर 18	अक्टूबर 19	अक्टूबर 20	अक्टूबर 21	अक्टूबर 22	अक्टूबर 23	अक्टूबर 24	अक्टूबर 25	अक्टूबर 26	अक्टूबर 27	अक्टूबर 28	अक्टूबर 29	अक्टूबर 30	अक्टूबर 31
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	868963	866124	919333	900938	898992	870632	829657							
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	100.6	100.2	106.4	104.3	104.0	100.7	96.0							

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

यद	अक्टूबर 17, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2024-25	2025-26	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	317202	-1961	-468	7788	53712	23199
1.2 बैंकों से उधार	84169	256	-51652	-27807	-70172	-46608
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	27974	-461	-49195	-1942	-48380	4717
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	23883278	-215363	1333105	1302677	2292522	2074946
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.9	6.5	5.8	11.7	9.5
2.1.1 मांग	2973155	-98441	100754	275106	295870	428547
2.1.2 मीयादी	20910123	-116922	1232351	1027571	1996652	1646399
2.2 उधारियां	860993	5063	87455	-54256	41515	-4404
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1097738	50897	13188	36106	50493	147121
3 रिज़र्व बैंक से उधार	8733	7221	-214960	-302733	-136050	977
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	915100	-58576	54894	-49189	67151	-160710
4.1 उपलब्ध नकदी	87638	-2441	1835	5764	466	-3630
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	827461	-56134	53058	-54953	66685	-157080
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	243092	8822	11710	27291	20196	33055
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	16905	-7280	5592	-8933	-5346	-1043
5.3 बैंकों को अग्रिम	31761	1296	-1475	-7743	-3183	-15133
5.4 अन्य आस्तियां	57267	-940	-50402	-10086	-28228	-7755
6 निवेश	6885114	8836	384450	187186	437579	394106
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.1	6.3	2.8	7.2	6.1
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6884499	8798	384658	187201	437534	394232
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	615	38	-208	-15	45	-125
7 बैंक ऋण	19211865	-49468	805510	967892	1779787	1974190
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.3	4.9	5.3	11.5	11.5
7 क.1 खाद्य ऋण	52490	9830	-4427	15959	-1187	33836
7 क.2 खाद्येतर ऋण	19159375	-59298	809937	951934	1780974	1940355
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	18845770	-49560	787020	935918	1731960	1924447
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	86695	1011	7616	11732	21357	18611
7 ख.3 भुनाए गए	244216	468	12881	23156	27622	33977
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	12918	-1031	-586	-2204	-367	-2908
7 ख.5 भुनाए गए	22267	-355	-1421	-710	-784	63

नोट: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

यद/समास सप्ताह	2024	2025				
	अक्टूबर 25	सितंबर 26	अक्टूबर 03	अक्टूबर 10	अक्टूबर 17	अक्टूबर 24
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	3.75	3.75	3.50	3.50	3.50
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	..	..	4.04	..	3.83	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	79.93	..	80.44	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	67.02	..	74.30	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	28.53	..	28.83	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	11.75	..	14.37	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एमडीएफ)दर*	6.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
स्थायी सीमांत सुविधा (एमएसएफ)दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
बैंक दर	6.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
आधार दर	9.10/10.40	8.50/10.30	8.35/10.30	8.35/10.00	8.35/10.00	8.35/10.00
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.15/8.45	7.80/8.00	7.80/8.00	7.80/8.00	7.80/8.00	7.80/8.00
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/7.25	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60	5.85/6.60
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
मांग मुद्रा दर (भारंकिंत औसत)	6.63	5.57	5.47	5.43	5.43	5.53
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.48	5.47	5.49	5.43	5.44	5.46
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.60	5.58	5.59	5.55	5.55	5.59
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	6.60	5.61	5.60	5.55	5.55	5.58
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.81	6.60	6.47	6.48	6.47	6.49
एफबीआईएल[®] संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	84.08	88.72	88.78	88.69	87.91	87.71
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	90.96	103.62	104.08	102.62	102.98	101.79
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	1.49	2.19	2.02	1.80	1.87	1.94
3-माह	1.69	2.17	2.19	2.08	2.08	2.08
6-माह	2.01	2.23	2.36	2.23	2.28	2.28

*प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@ 10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका डॉलर / भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।

1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दूर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	अक्टूबर 17	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	27286589	28714532	-180737	-0.6	1349422	5.4	1427943	5.2	2549349	10.7	2425250	9.2
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3630751	3729201	30709	0.8	4957	0.1	98450	2.7	213550	6.7	313969	9.2
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2840023	3118369	-98206	-3.1	101098	3.9	278347	9.8	297573	12.4	430383	16.0
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	20702508	21752052	-114298	-0.5	1239611	6.6	1049543	5.1	2012874	11.1	1664280	8.3
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	114910	1057	0.9	3755	4.0	1603	1.4	25352	34.8	16618	16.9
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	8510825	8693976	-40191	-0.5	321912	4.2	183150	2.2	550102	7.5	768493	9.7
2.1.1 रिज़र्व बैंक	1508105	1491026	-47488		-60780		-17080		113859		358593	
2.1.2 अन्य बैंक	7002720	7202950	7297	0.1	382691	6.0	200230	2.9	436243	6.9	409900	6.0
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	19068129	20023114	-45108	-0.2	802437	4.7	954985	5.0	1812065	11.2	2017845	11.2
2.2.1 रिज़र्व बैंक	38246	14936	2323		-5231		-23309		3931		5761	
2.2.2 अन्य बैंक	19029883	20008178	-47431	-0.2	807668	4.7	978294	5.1	1808134	11.2	2012084	11.2
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	6148527	6600142	-33116	-0.5	425364	7.6	451615	7.3	945800	18.7	607274	10.1
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	36632	38864	0	0	1401	4.2	2232	6.1	3184	10.1	4031	11.6
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं	6477524	6641563	62322	0.9	201693	3.7	164039	2.5	761802	15.5	972393	17.2
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	2147427	2609138	39938	1.6	136484	7.6	461711	21.5	453483	30.8	682520	35.4

नोट: 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2025		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दूर-वर्ष			
					2024-25		2025-26		2024		2025	
	मार्च 31	अक्टूबर 24	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4829243	4826831	317	0.0	107345	2.3	-2411	0.0	393186	9.0	88040	1.9
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3724448	3834849	5661	0.1	23319	0.7	110401	3.0	230960	7.0	300069	8.5
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	991488	878170	-4246	-0.5	81763	8.0	-113318	-11.4	139983	14.5	-229042	-20.7
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	113307	113812	-1098	-1.0	2262	2.4	506	0.4	22243	29.8	17013	17.6
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1508105	1434476	-56549		-133064		-73629		93435		374327	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1475460	1410742	-50231		-150543		-64718		91227		374630	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-119015	-28981	67818		-696		90035		-150901		17863	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-157261	-44622	67113		2949		112639		-156418		12982	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5550947	5933939	-68623	-1.1	364225	6.9	382992	6.9	870387	18.4	328631	5.9
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	36632	38864			1748	5.2	2232	6.1	3240	10.1	3684	10.5
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयता	2147427	2551467	-57671	-2.2	124868	7.0	404040	18.8	422975	28.3	636465	33.2

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	ऋय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अक्टूबर 20, 2025	-	-	163113	-	424	104425	-	-	-	59112
अक्टूबर 21, 2025	-	-	-	-	397	109627	-	-	-	-109230
अक्टूबर 22, 2025	-	-	-	-	85	119420	-	-	-	-119335
अक्टूबर 23, 2025	-	-	475	-	431	160431	-	-	-	-159525
अक्टूबर 24, 2025	-	-	30750	-	7026	79899	-	-	-	-42123
अक्टूबर 25, 2025	-	-	-	-	14304	78878	-	-	-	-64574
अक्टूबर 26, 2025	-	-	-	-	16390	82049	-	-	-	-65659

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2024		2025		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	अगस्त	सितंबर	अगस्त	सितंबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	193.0	194.2	197.0	197.2	0.1	2.7	1.5
1.1 ग्रामीण	195.4	196.7	198.7	198.8	0.1	2.5	1.1
1.2 शहरी	190.3	191.4	195.0	195.3	0.2	2.8	2.0
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	142.6	143.3	147.1	..	..	..	..
3 शोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	154.4	154.7	155.2	154.9	-0.2	0.1	0.1
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	195.1	195.5	191.0	189.0	-1.0	1.9	-3.3
3.2 ईंधन और बिजली	148.3	147.2	143.6	143.4	-0.1	-5.7	-2.6
3.3 विनिर्मित उत्पाद	141.3	141.9	144.9	145.2	0.2	0.4	2.3

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, और श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
अक्टूबर 03, 2025	497940	38004	5.49 - 6.82
अक्टूबर 17, 2025	502668	24608	5.50 - 6.40

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
सितंबर 30, 2025	488263	70288	5.73 - 12.34
अक्टूबर 15, 2025	495679	30795	5.71 - 12.49

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	अक्टूबर 25, 2024	अक्टूबर 17, 2025	अक्टूबर 24, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	16926	29553	23253
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	976	7344	1823
3 त्रिपक्षीय रेपो	682726	855476	631977
4 बाजार रेपो	497243	814505	630603
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	4146	13715	12710

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

अक्टूबर 24, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	9715	21139	83886	215786
182-दिवसीय	53119	40008	18930	185830
364-दिवसीय	70652	78381	45103	358503
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2025-26 (अक्टूबर 24, 2025 तक)	2024-25 (अक्टूबर 25, 2024 तक)	2024-25	2025-26 (अक्टूबर 24, 2025 तक)	2024-25 (अक्टूबर 25, 2024 तक)	2024-25
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	885000	840697	1400697	678299	645151	1039275
2. राज्य सरकारें	540002	445429	1073310	375005	302128	753345

भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई - 400001 की ओर से श्री आशीष थॉमस जॉर्ज, निदेशक द्वारा संपादित और श्री जी.वी. नथनएल, निदेशक द्वारा प्रकाशित।